

[12 March, 2007]

RAJYA SABHA

- II. (a) Annual Report and Accounts of the Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi for the year 2005-2006, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Sansthan.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above.

[Placed in Library. See No. L.T. 5932/07]

- III. (a) Annual Report and Accounts of the Indian Council of Historical Research (ICHR), New Delhi, for the year 2005-2006, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Council.

[Placed in Library. See No. L.T. 5860/07]

- IV. (a) Annual Report and Accounts of the Board of Apprenticeship Training (BOAT), Southern Region, Chennai, for the year 2005-2006, together with the Auditor's Report on the Accounts.
- (b) Review by Government on the working of the above Board.
- (c) Statement giving reasons for the delay in laying the papers mentioned at (a) above. [Placed in Library, See No. L.T. 5859/07]

[MR. DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

MATTERS RAISED WITH PERMISSION—(Contd.)

Re. Pension for Freedom Fighters; of Telangana Armed Struggle

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I thank you for permitting me to raise an issue pertaining to freedom fighters from Andhra Pradesh who are staging a dharna in Delhi. Even after 60 years of Independence, freedom fighters are forced to stage a dharna in Delhi for recognition and respect. It is pity that the Government at Delhi is not at all attending to their grievances. On the direction given by the hon. Chairman, the hon. Home Minister convened a meeting about six months ago and, in that meeting -we, Members from Lok Sabha and Rajya Sabha, were all present - it was resolved and the hon. Home Minister assured us

were all present- it was resolved and the hon. Home Minister assured us that he would revive the Committee constituted earlier called the Rajeshwar Rao Committee. But, nothing has happened since then. Sir, the freedom fighters, again, are forced to come to Delhi and agitate before Parliament. Hence, I request the Government of India - many people have also died during this struggle - to consider their grievance immediately. Sir, at the age of 80 we are forcing them to come to Delhi and stage a dharna! Sir, it is by virtue of their struggle and by virtue of their sacrifice we are here, in Parliament. And, today, we are going to appreciate our scientists for launching INSAT-IVB. But, it is by virtue of their struggle and sacrifice, we have become free. But, we are not in a position to recognize and respect them. Is it justified? We are raising this issue in every Session. Many people, while coming to Delhi, or, even after reaching Delhi, died. This is very unfortunate and uncalled for attitude of the Government. So, I request that the Government should come to the rescue of these people and it should respond positively. It is high-time, as we are celebrating 150 years of our Freedom Struggle and 60 years of Independence, to redress their grievances immediately.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. You have brought this to the notice of the Government.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, even at this age, they are forced to come to Delhi. The Government should respond to this. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are two more people.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, we are all part of that struggle. Mr. Madhu, Mr. Sitaram, we are all part of their struggle.

SHRI PENUMALLI MADHU (Andhra Pradesh): Sir, the UPA Government promised pension for freedom fighters who fought for freedom under Telangana Arms Struggle. It is being delayed because of some bureaucratic procedure. In the meanwhile, many Members of Parliament from all parties - Lok Sabha and Rajya Sabha - represented to the hon. Home Minister about the issue. The hon. Home Minister promised us that he would find some way out for this bureaucratic delay. He promised and a meeting was convened. In that meeting, the Home Minister assured us for constituting a Screening Committee which was announced earlier. The Committee

was to look into the matter and see that all freedom fighters were given pension in due course of time. But, even after six months, it has not been implemented. Two years are over. Many freedom fighters died. Only a few remain. Many of them are at the age of 80 years. They are all here, on Parliament street, and are demonstrating today. We request the hon. Minister since the Home Minister is not here, to consider this, as this subject comes under his Ministry favourably and immediately. The Home Minister has to give some assurance to this House to see that the pension is provided to them. We had also represented to the Prime Minister, but in spite of our repeated representation (*Interruptions*),...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, that's right.

SHRI SITARAM YECHURY (West Bengal): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am rising only because of the fact that, as a generation born after independence, I am absolutely ashamed that people who fought for our country's independence and freedom are today staging a *dharna* outside the Parliament. This is shameful to the entire country and to the entire generation. Here the question is not that of monetary gains, which they will gain as a freedom fighter, but it is a question of the recognition of the role that they played for our country's freedom. It is unfortunate, whether it is because of the monetary situation, some bureaucratic hurdles are coming. I would even suggest that don't even give them monetary benefit, but recognize the fact that they contributed to our freedom struggle. Why is the Government dragging its feet on that? We had met the hon. Prime Minister; the delegation had met the hon. Home Minister; they met the Prime Minister and the Home Minister together in one meeting. But two-and-a-half years have passed, when this assurance was given. I think, we will go down in history, this Government will go down in history as an ungrateful Government which does not even recognise the role played by people for our country's freedom, and we should not have this sort of a situation in this country. So, I urge upon the Government to immediately respond and correct the situation.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) : उपसभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इसी सवाल की ओर आकर्षित करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि मैंने एक सवाल यहां उठाया था और सरकार ने मेरी बात मानते हुए पेंशन को 10,000 रूपए किया और उनको जो facilities वगैरह मिलती है, उनमें भी इजाफा किया। एक स्पेशल मीटिंग भी होम मिनिस्टर साहब ने इसके लिए बुलाई थी, जब इस विषय पर हाउस में यहां consensus हुआ तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई

थी और उसमें उन्होंने बहुत सारी दिलाई चीजें तय करने का फैसला किया था। यह जरूरी है कि जिन लोगों ने हमें आजादी अदलाइ और हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उनकी ओर हम देखें। मैं आशा करता हूँ कि सरकार ने जो अच्छे कदम उठाए हैं, उनमें वह और बढ़ोत्तरी करके, उनको और ज्यादा सुविधाएं देगी।

श्रीमती सुषमा स्वराज (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलते हुए भी एक बात कही थी कि जो राष्ट्र अपने नायकों को भूल जाता है, वह राष्ट्र बरबाद हो जाता है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी मांगें मनवाने के लिए धरने पर बैठना पड़े, हमारे शहीदों की विधवाओं को भूखा मरना पड़े, हमारे राष्ट्र के लिए इससे बड़ी कोई और शर्म की बात नहीं हो सकती है। हमने पहले दुर्गा भाभी के बारे में एक बात सुनी थी और हर दिन, कम से कम राज्यों के समाचारपत्रों में ऐसा एकाध किस्सा सुनने को मिल जाता है। जिस बैठक की बात अभी भाई जय प्रकाश जी कर रहे थे वह उन्हीं के एक प्रश्न में से निकली थी, उन्होंने यहां एक प्रश्न पूछा था और उस प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री जी ने उस बैठक को बुलाने के लिए कहा था। वह बैठक बुलाई गई और बहुत सी चीजें उसमें रखी थीं, मानी भी गई थीं, लेकिन अभी तक वे कार्यान्वित नहीं की गई हैं। उसमें गोआ मुक्ति संग्राम में जम्मू कश्मीर के जिन 9 लोगों ने भाग लिया था, उनकी एक फाइल भी मैंने गृह मंत्री जी को दी थी, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसलिए श्री चंद्रशेखर रेड्डी जी ने विषय यहां रखा है, मैं उनके सुर में मिलाती हूँ कि गृह मंत्रालय को सुर जागाना चाहिए और सरकार को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए तथा किसी भी कीमत पर हमारे स्वतंत्रता सेनानी धरने और प्रदर्शन पर न बैठें, ऐसा काम करना चाहिए।

प्रो० राम देव भंडारी (बिहार) : उपसभापति जी, मेरे हाथ में एक पेपर है, जिसमें इसी संबंध में कुछ जानकारी है

Total number of applications received - 6,26,949

No. of applications rejected -4,56,978

No. of pensions sanctioned - 1,69,961

यह 31.7.06 तक की जानकारी है। मेरी जानकारी के अनुसार जब NDA की सरकार आई थी, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का था, उस समय इस स्कीम को रोक दिया गया...(व्यवधान)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, one should rise above politics, at least, in such cases. We are playing politics even with the freedom fighters also.... (Interruptions)...

प्रो० राम देव भंडारी : जब से यह UPA की सरकार आई हैं, तब ये नये सिरे से इसकी शुरुआत है। होम मिनिस्टर साहब की जो बैठक सभी संसद सदस्यों के साथ हुई थी, उसमें हमको यह पेपर दिया गया था। इस विभाग में एक पदाधिकारी बैठा हुआ है...। महोदय, 80 .साल का एक बूढ़ा हमारे पार्टी ऑफिस में आया जिसे पेंशन नहीं मिल रही थी। वह ठाकुर समस्तीपुर का रहने वाला है। हम सब जानते हैं कि वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, मगर उस की भी पेंशन रोक दी गयी है। वह यहां आकर धक्के खा रहा है।...**(व्यवधान)**... हम पत्र लिख रहे हैं...**(व्यवधान)**...

SHRI M. VENKAIAH NAIDU (Karnataka): Sir, you should not allow this**(Interruptions)**....

श्री रूद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : आप उस ऑर्डर का नंबर बताइए।...**(व्यवधान)**...

प्रो० राम देव भंडारी : आप लोगों ने वह स्कीम बंद कर दी।

श्री उपसभापति : भंडारी जी, आप controversy मत पैदा कीजिए।

प्रो० राम देव भंडारी : महोदय, इन लोगों ने ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : यह सवाल अलग है, यहां वातावरण अच्छा रहना चाहिए।

प्रो० राम देव भंडारी : स्वतंत्रता संग्राम में इन लोगों का कोई योगदान नहीं था, इसलिए स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति इनको कोई दर्द नहीं है।...**(व्यवधान)**... मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उनकी पेंशन क्यों रोकी गयी? इसको आप तुरंत चालू करें।

श्री उपसभापति : श्रीमती मोहसिना किदवई।...**(व्यवधान)**... आप बैठिए, यह डिबेट नहीं हो रही है। allowed one or two persons only, not everybody.**(Interruptions)**.... पाणि जी आप बैठिए।

श्री रूद्रनारायण पाणि : सर, आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस में जाने का अधिकार नहीं है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : पाणिजी, बैठिए। Everybody wants to participate in this.**(Interruptions)**.... No; no **(Interruptions)**.... It is not State-wise.**(Interruptions)**.... Please sit down**(Interruptions)**.... How can I allow?**(Interruptions)**....

श्रीमती मोहसिना किदवई (छत्तीसगढ़) : उपसभापति जी, स्वतंत्रता सेनानियों के सवाल को पार्टी-लाइन से अलग रखना चाहिए। यह मानना चाहिए कि जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं थे, आज वे उसकी वकालत कर रहे हैं। सर, हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो

मुजाहिदीन थे, उन्होंने जिन हालात में देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी और आज जिनकी बदौलत हम यहां बैठे हैं, हमें यह सोचना चाहिए कि जितने हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और उनके खानदान के हैं, उनके बहुत से केस हम लोगों के पास आते हैं जिन को genuinely पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन वह नहीं मिल रही है, जिन के आश्रितों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल रही हैं। मैं तो सरकार से यहां तक कहूंगी कि जो मुजाहिदीन आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके साथ हजारों ऐसे लोग थे जो उनका खाना बनाते थे, पैगाम लेकर जाते थे या उनके आश्रित थे, अभी भी ऐसे केसेज हैं... (व्यवधान)... इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक कमेटी बने क्योंकि आज जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वे 70 साल से ऊपर के होंगे, खुदा करे उनकी उम्र और ज्यादा हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक एक कमेटी बिठायी जानी चाहिए जो एक specific period में उन सारे केसेज का निपटारा करें।

मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि आज कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने बच्चों से मिलने या तीर्थ यात्रा करने या एकाध जगह और जाता होगा। इसलिए यात्रा की उन्हें सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। खासतौर से उनकी हैल्थ की देखरेख के लिए कोई बंधन नहीं रखा जाना चाहिए। उनका बड़े-से-बड़े हास्पिटल में मुफ्त इलाज हो और हम उन्हें पूरा आदर, इज्जत और अहमियत दें। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि आज उनकी वजह से हम यहां बैठे हैं। इसलिए मेहरबानी कर के आप उनके लिए एक जल्द-से-जल्द कमेटी बनाएं ताकि उनके केसेज का निपटारा हो और उन्हें अपनी पेंशन के लिए यहां धरने पर न बैठना पड़े।

† شریعتی محسنہ قدوائی "چھتیس گڑھ": اپ سہا پتی جی، سوتنترتا سنگرام سینانیوں کے سوال کو پارٹی لائن سے الگ رکھنا چاہیے۔ یہ ماننا چاہیے کہ جو لوگ سوتنترتا سنگرام میں شامل نہیں تھے، آج وہ اس کی وکالت کر رہے ہیں۔ سر، ہم لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ جو مجاہدین تھے، انہوں نے جن حالات میں دیش کے لئے اپنی جان کی قربانی دی اور آج جن کی بدولت ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جتنے ہمارے سوتنترتا سنگرام کے سینانی اور ان کے خاندان کے ہیں، ان کے بہت سے کیس ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں جن کو جینونلی پینشن ملنی چاہیے، لیکن وہ نہیں مل رہی ہے، جن کے آشرتوں کو سویدھائیں ملنی چاہئیں، وہ نہیں مل رہی ہیں۔ میں تو سرکار سے یہاں تک کہوں گی کہ جو مجاہدین آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، ان کے ساتھ ہزاروں ایسے لوگ تھے جو ان کا کھانا بنا تے تھے، پیغام لیکر جاتے تھے یا ان کے آشرت تھے، ابھی بھی ایسے کیسز ہیں... مداخلت... اس لئے میں چاہتی ہوں کہ ایک کمیٹی بنے کیوں کہ آج جو سوتنترتا سنگرام سینانی ہیں وہ 70 سال سے اوپر کے ہونگے، خدا کرے ان کی عمر اور زیادہ ہو۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ ایک کمیٹی بٹھائی جانی چاہیے۔ جو ایک اسپیسفک پیریڈ میں ان سارے کیسز کا مطالعہ کرے۔

†[] Transliteration of Urdu Script.

मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज को सौतन्त्रता संग्राम सेनानी अपने बच्चों से मिलने या तब तक यात्रा करने या एक आदमी जग और जाता होगा। इस लिये यात्रा की हमें सभी सुविधाएँ मिलनी चाहिए। खास तौर से उनकी बिल्ट की देख रिक के लिये को बंद नहीं रखा जाना चाहिए। उन का बुरे से बुरे हॉस्पिटल में मुफ्त एलाज हो और हम हमें पुरा आदर, عزت और अहमियत दें। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि आज की उम्र से हमें यहाँ बिठे हैं इस लिये मर्यादा के आज की लिये एक जल्द से जल्द कमिटी बनाई ताकि उन के किस्स का निपटारा हो और हमें अपनी पंशन के लिये यहाँ दूरने पर न बिठना पड़े

श्री रुद्रनाराण पाणि : सर, उन्हें रेल यात्रा...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : श्री पाणि, आपके दो-तीन लीडर्स बोल चुके हैं, आप बैठिए...(व्यवधान)...

The House is unanimous on this issue. ...(Interruptions)... यह नहीं आप ऐसे डिस्टर्ब मत कीजिए।...(व्यवधान) आप बैठिए, आपकी पार्टी से दो-तीन मॅम्बर बोल चुके हैं, मैं हर आदमी को मौका नहीं दे सकता हूँ।

श्री वृजभूषण तिवारी (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, यह सचमुच बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी आज अपनी मांगों को ले कर सदन के बहार धरने पर बैठे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पेंशन 500 रुपये बढ़ा दी। जो लोग लोकतंत्र के, मीसाबंदी के सेनानी थे, उनके 1000 रुपये कर दिए गए हैं। इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने यह जो कदम उठाया है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो खास तौर पर आजादी या गांधी जी के नाम पर जी रही है, कम से कम स्वतंत्रता संग्राम के उन सेनानियों, सिपाहियों के कल्याण की बात सोचनर चाहिए। क्या सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी?

श्री उपसभापति : मंत्री जी, आप बोलिए...(व्यवधान)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर (हिमाचल प्रदेश) : माननीय उपसभापति जी, यह जो पेंशन...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : नहीं, नहीं, अब मंत्री जी बोलेंगे...(व्यवधान)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर : जो पेंशन एनहांस की गई है, वह फ्रीडम फाइटर्स की विडोज को नहीं मिल रही है। जो फ्रीडम फाइटर्स जिंदा हैं, चाहे वे मेल हैं या फीमेल, सिर्फ उनको मिल रही है। लेकिन जो मेल फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी विडोज को एनहांस पेंशन नहीं दी जा रही है। मैं मंत्री जी से कहूंगी कि वह इसके बारे में भी विचार करें।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी) : माननीय उपसभापति महोदय, परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने में हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का जो योगदान रहा है, वह न केवल अविस्मरणीय है, बल्कि उसकी जितनी स्तुति की जाए, कम है।

मान्यवर, मुझे खुशी है कि स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए सरकार की ओर से जो भी कदम उठाए जाने चाहिए, उनके मामले में यह सदन एकमत है और इस बात का पक्षधर है कि इस दिशा में आगे और जो कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, वह कदम अवश्य उठाए जाएं। जहां तक सभी सम्माननीय स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों की पेंशन या अन्य सुविधाओं से संबंधित प्रकरणों का प्रश्न है, जिनका जिक्र अभी सम्माननीय सदस्यों ने किया है, उस दिशा में कदम उठाने का प्रश्न है, मैं इस सदन की भावना से ने केवल माननीय गृह मंत्री जी को अवगत करा दूंगा, बल्कि इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों के स्वर में अपना स्वर भी मिलाते हुए मैं माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बगैर किसी विलम्ब के इस दिशा में जो कुछ भी किया जा सकता है, मैं ऐसा मान कर चलता हूँ कि हम वैसा सब करके, उन स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे, जिनके त्याग की वजह से, कुर्बानी की वजह से, तपस्या की वजह से आज हम सब इस स्वतंत्र भारत को प्रगति और विकास के द्वार पर दस्तक देते हुए देख रहे हैं। मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हमारे सभी सम्माननीय स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों को उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं, उसके मामले में गुहार करने की आवश्यकता पड़े। मैं तो यह कहूंगा कि सरकार में चाहे कोई भी रहा हो, जब भी रहा हो, मैं सोचता हूँ कि उसका राजनीतिकरण न करके, हम सभी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। पूरे सदन ने जो बात उठाई है, उन भावनाओं से मैं अपने आप को जोड़ते हुए माननीय गृह मंत्री जी को समुचित कार्यवाही के लिए अवगत करवा दूंगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let it be done in a time bound manner.

श्री सुरेश पचौरी : सर, मैंने समुचित कार्यवाही बोला है। मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा है कि मैं केवल अवगत करवा दूंगा...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति : उसमें चेयर का स्वर भी ऐड कर दीजिए। आपके स्वर में चेयर का स्वर भी ऐड कर दीजिए।

श्री सुरेश पचौरी : बगैर किसी विलम्ब के यह होगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we shall take up Special Mentions. They have to be laid on the Table. Dr. Gyan Prakash Pilania. आप Lay कर दीजिए।

DR. GYAN PRAKASH PILANIA(Rajasthan): Sir, I will just read out the caption.

श्री दत्ता मेघे (महाराष्ट्र) : सर पहले स्पेशल मैन्शन को पूरे हाउस में पढ़ते थे, लेकिन अब पढ़ना बंद कर दिया है।

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: Sir, this is not the right way.

श्री उपसभापति : नहीं, हमने बंद नहीं किया है, इसीलिए हम स्पेशल मैन्शन को हर रोज ले रहे हैं। पिलानिया जी, आप बबोलिए, यह डिजीजन हो गया है।

श्री दत्ता मेघे : सर, यह तो हमारा अधिकार है।

SHRI A. VIJAYA RAGHAVAN (Kerala): Sir, the Government is not giving proper reply. That was not the convention, ...(*Interruptions*)...

श्री दत्ता मेघे : यहां पर इसे पढ़ने की प्रथा है, वह आप क्यों बंद कर रहे हैं। अगर एक-दो दिन ऐसा होता है, उसे तो हम समझ सकते हैं, लेकिन यह क्या है?

श्री उपसभापति : देखिए, यह हाउस के बिजनेस को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अभी पढ़ने के लिए वक्त नहीं है।

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: Sir, the subject of my Special Mention is, the need for empowerment of women. It is a very important issue, and this should have been read out. But, as you desire, I lay on the Table of the House my Special Mention regarding need for empowerment of women.

But, it should have been read over.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It would be taken on record. It would be sent to the Government and you would get the reply.

DR. GYAN PRAKASH PILANIA: The point is that other hon. Members would like to associate with it. They can't associate without knowing the subject.

SHRI A. VIJAYARAGHAVAN: Sir, they are not even sending a proper reply.

SHRIMATI BRINDA KARAT (West Bengal): We are not able to hear it सर, जो मेम्बर्स कहना चाहते हैं, उसे हम सुनना चाहते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: This would be brought to the notice of the Government, आप ले कर दीजिए।

SPECIAL MENTIONS

Demand For Empowerment of Women

DR. GYAN PRAKASH PILANIA (Rajasthan): Sir, at a time when a political consensus continues to elude a Bill to reserve 33 per cent seats for women in Parliament, UNICEF's State of the World's Children Report, 2007, released on 12th December, 2006, heaps praise on women representatives in India's villages. The report says that reservation for Women in Panchayats has helped bring all-round development to villages. It refers to a study of 165 villages in West Bengal which showed that with the participation of women in village councils, investment in drinking water doubled, Government health workers started visiting more frequently, more girl children started going to school and roads improved.

Another survey, of 100 villages in Rajasthan, found that those with women Pradhans got more children immunised, sent more girl children to school and had better health facilities for women. The report makes a passionate plea to empower and trust women, they make better representatives of the people than men. They meet development goals and pay special attention to children.

The reports also make a strong case for more women in Parliament. It gives examples of countries like Argentina, where welfare improved as more women became legislators. The report says that India's Parliament had only 8.3 per cent women in 2004. In comparison, Pakistan's Parliament had 21.3 per cent and Bangladesh had 14.8 per cent.

In the light of UNICEF Report, I would make a submission to the hon. Prime Minister that when women have not failed in Panchayats, why should they lag behind in Parliament.

Demand for Reclamation of Surface Water Bodies in Karnataka

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, as admitted by the Ministry of Water Resources, Government of India, 97 per cent of the State of